



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER
Jaipur September 05, 2019**

F.10 (Elec) LSG/19/8688 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Srimadhapur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Srimadhapur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

नगर पालिका श्रीमाधोपुर जिला-सीकर राज.		
प्रपत्र-क		
क्र.सं.	वार्ड	वार्ड की परिसीमा
1	1	बाबा ब्रह्मचारी के पश्चिम दक्षिण की ओर नगर पालिका सीमा-सीमा चलते हुये पालिका गन्दा नाला तक, यहा से दक्षिण दिशा की ओर बाई पास चलते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए ढाणी रधुनाथ वाली एवं आगे चलकर कृषि उपज मण्डी के पश्चिमी-दक्षिणी गेट तक, यहा से पूर्व की ओर मण्डी की दीवार चलकर पूर्वी-दक्षिणी गेट तक, यहा से उत्तर ओर मण्डी दीवार चलते चलते उत्तरी पूर्वी गेट तक अर्थात सम्पूर्ण मण्डी को शामिल करते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए कब्रिस्तान स्थित दुकान के दक्षिण पूर्वी कोने तक, यहा से उत्तरी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए बाबा ब्रह्मचारी के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक।
2	2	विश्वकर्मा मन्दिर के सामने जोगियो के मकान से उत्तरी ओर चलकर पूर्व में महर्षि मोहल्ला घूमकर बाई आबादी ठाकरसी दास वाली (रुकमणी वाली) बाई

		<p>आबादी को शामिल करते हुए उत्तरी पूर्वी ओर घूमकर दाईं ओर की आबादी कैलाश महर्षि, पुरुषोत्तम कुमावत को छोड़ते हुए बाईं आबादी देवेन्द्र तिवाड़ी स्कूल को शामिल करते हुए अनिल साबू के मकान तक, यहाँ से उत्तर की ओर घूमकर रास्ते रास्ते गोशाला होते हुए गोपाल सेवदा के मकान तक, यहाँ से पूर्व की ओर बाईं आबादी को शामिल करते हुए गौशाला चुंगगी नाका (गोदाम) तक , यहाँ से उत्तर की ओर बाईं आबादी को शामिल करते हुए भैरुजी डेयरी कब्रिस्तान के सामने तक, यहाँ से पश्चिम की ओर मण्डी रास्ते रास्ते चलकर बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए मण्डी के गेट तक, यहाँ से दक्षिणी ओर मण्डी दीवार को छोड़ते हुए सीव-सीव पूर्वी -दक्षिणी गेट के सामने तक, यहाँ से पश्चिमी ओर दाईं आबादी मण्डी को छोड़ते हुए बाईं आबादी को नवोडी, खेडावाली तथा अन्य आबाद आबादी को शामिल करते हुए बाईं पास रोड तक, यहाँ से दक्षिण की ओर मैन चलते हुए बाईं आबादी को शामिल करते हुए पूर्व में सीकर बाजार रोड घूमकर विश्वकर्मा मन्दिर के सामने जोगियो तक ।</p>
3	3	<p>रामजी लाल बजाज के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने से पूर्वी ओर रास्ते रास्ते चलते हुए पुरुषोत्तम कुमावत , कैलाश महर्षि की बाईं आबादी को शामिल करते हुए ठाकरसी दास वाली (रुकमणी) को छोड़ते हुए रास्ते रास्ते नवोडी रास्ते तक, यहाँ से दक्षिण की ओर घूमकर रास्ते -रास्ते चलकर बाईं ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए विश्वकर्मा मन्दिर के पश्चिमी - दक्षिणी कोने तक, यहाँ से पूर्वी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाईं ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए मालीराम राणा को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर की ओर चलकर किशोरी लाल हलवाई के दुकान के उत्तरी पूर्वी कोने तक, यहाँ से दक्षिण की ओर चलते हुए बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए नन्दलाल, अणतराम धोबी के मकान के सामने रूपनारायण निमेडा वाले के मकान के उत्तरी पूर्वी कोने तक , यहाँ से पूर्वी ओर चलकर बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए खेडीवालो के मकान के दक्षिणी पूर्वी कोने तक, यहाँ से उत्तरी ओर चलकर आमना तेलन (डेगडा) को शामिल करते हुए पूर्व में सीकर बाजार रास्ते-रास्ते चलकर त्रिमूर्ति प्रिंटिंग प्रेस (कैलाश काल्या) तक, यहाँ से उत्तरी ओर रास्ते रास्ते चलकर बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए गोकुलका के नोहरे तक , यहाँ से पश्चिमी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए काबरो के मकान तक , यहाँ से उत्तर चलकर बाईं ओर की आबादी करते हुए अनिल साबू के मकान के सामने तक, यहाँ से पश्चिमी ओर रामजी लाल के मकान तक ।</p>

4	4	<p>ढाणी बागावाली कृषि भूमि विजयपुरा तिराहे से उत्तर की ओर बाईपास रोड-रोड खण्डेला की तरफ बाई ओर की आबादी / कालोनी को शामिल करते हुए ढाल्यावास चैराहा तथा गन्दे नाले पर स्थित आबादी / कालोनी को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा-सीमा बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए भरतदास आश्रम / कालोनी काल्यावाली, ढाणी चोटियोवाली सुखामाली वाली कालोनी, जोशी कालानी , तीजावाली कालानी को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा-सीमा मैन रोड विजय पुरा तीजावाल जोहडा रोड तक , यहा से दक्षिणी ओर स्कुल आश्रम को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा-सीमा बाई ओर की आबादी तीजावला जोहडा कालोनी को शामिल करते हुए पूर्वी उत्तरी रास्ते-रास्ते चलकर शिव मन्दिर को छोडते हुए मैन रोड पर स्थित गट्टे तक, यहा से पूर्वी ओर रास्ते -रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए ढाणी बागावाली के दक्षिणी-पूर्वी कोने बाई पास चैराहे तक</p>
5	5	<p>ढाणी राडा वाली पूर्वी दक्षिणी कोने से उत्तरी ओर चलकर ढाणी हावडा वाली की सीमा को छोडते हुए मैन राड तक , यहा से पश्चिमी उत्तरी ओर बाईपास रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बाई पास रास्ते-रास्ते खाटु जान वाले मैन रोड रास्ते तक, यहा से पूर्वी ओर घूमकर सुरजाराम बलाई क मकान तक , यहा से बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मीणा चैक रास्ते तक, यहा से पश्चिमी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए आवला वाली, डोड्यावाली को शामिल करते हुए शिव मन्दिर तक, यहा से दक्षिण की ओर बाई आबादी को शामिल करते हुए अमरदास हरकनका वाली तथा अन्य आबाद-आबादी को शामिल करते हुए दाई आबादी तीजावाला जोहडा को छोडते हुए पालिका सीमा-सीमा दक्षिण की ओर रास्ते-रास्ते चलते हुए बाई आबादी को शामिल करते हुए चुलेटा वाली मिश्रावाली को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा-सीमा ढाणी राडा वाली के पूर्वी दक्षिणी कोने तक ।</p>
6	6	<p>हावडा तिराहे बाईपास से रास्ते-रास्ते पूर्वी ओर बाई आबादी को शामिल करते हुए वाटर वक्रस के कोने पर स्थित रेस्टोरेट (दुकान तक), यहा से उत्तर की बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते स्टेशन रोड पेट्रोल पम्प के उत्तरी पूर्वी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर बाई आबादी को शामिल करते हुए सीताराम बाबा आश्रम होते हुए उत्तरी रास्ते-रास्ते दरवाजे वाले बालाजी मन्दिर, महावीर दल चोक तक, यहा से पश्चिम ओर बाई आबादी को शामिल करते हुए चलकर सीधे काजीवाली, मोल्यावाली को शामिल करते हुए उत्तरी सीव-सीव चलकर इद्रा विश्राम गृह के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक, यहा</p>

		से पश्चिम की ओर चलकर मन्ना बलाई के मकान को शामिल करते हुए पुराने खाटु जाने वाले रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बाईपास तक, यहा से दक्षिण की ओर रींगस की तरफ बाई ओर की आबादी मउवाली, कलवानिया वाली आबादी को शामिल करते हुए हावडा तिराहे बाईपास तक
7	7	ढाणी हावडा वाली, ढाणी डेराराम सागर, गेरवाली बधाला वाली को शामिल करते हुए रेलवे फाटक जालपाली तक, यहा से पूर्वी ओर मनोज स्वामी की कृषि भूमि को छोडते हुए पूर्वी ओर मैन रोड पार कर मोठूराम, सुनारो की कृषि भूमि को छोडते हुए बाई ओर की आबादी खोखरावाली को शामिल करते हुए दाई ओर की आबादी ढाणी पाट्यावाली, पाद्यावाली गोपाकावाली को छोडते हुए पूर्वी दक्षिणी रास्ते -रास्ते चलकर नवोडा वाली, मिश्रावाली जोशी कालोनी अन्य आबाद-आबादी को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते चलकर बिज्यावाली स्कुल के सामने तक, यहा से पश्चिमी की ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मकखन पुजारी कृषि भूमि सीव-सीव रेलवे फाटक (मानपुरिया) तीन दुकान (शेखावतान) तक, यहा से पश्चिमी की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए हावडा तिराहा होते हुए ढाणी हावडा वाली तक ।
8	8	जालपाली फाटक अण्डरपास से दक्षिणी पूर्वी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रोडवेज डिपो को छोडते हुये रींगस रोड तक, यहा से उत्तर पूर्व की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी जालपाली को शामिल करते हुए रीको की दीवार तक, यहा से उत्तर की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए अजीतगढ रोड तक, यहा से ढाणी पाट्यावाली, ढाणी गोपाकावाली, ढाणी पाध्यावाली की बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए पश्चिमी दिशा की ओर घूमकर ढाणी खोखरावाली की आबादी को छोडते हुए बाई आबादी को शामिल करते हुए सुनारो वाली एवं मोठूराम की सीव-सीव चलकर मैन रोड तक, यहा से मनोज स्वामी की कृषि भूमि सीव-सीव बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए जालपाली फाटक अण्डर पास तक ।
9	9	बिज्यावाली राजकीय प्राथमिक विद्यालय को शामिल करते हुए दक्षिणी की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई आबादी को शामिल करते हुए तथा दाई आबादी ढाणी गोपाकावाली, ढाणी पाद्यावाली , ढाणी पाट्यावाली को छोडते हुए नगर पालिका सीमा-सीमा पूर्वी उत्तरी ओर छोटुराम के मकान देवनाली होते हुए डेरादूधा की बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मिश्रावाली प्याऊ तक,

		यहा से पश्चिमी दिशा की ओर रास्ते-रास्ते बट्टी कुमावत के मकान तक, यहा से दक्षिण की ओर रास्ते-रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए नाथूराम की दुकान तक, यहा से पश्चिम की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बिज्यावाली राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक।
10	10	पंचाली रेलवे फाटक पम्पिंग सेट से दक्षिणी ओर बाई ओर की आबादी सोनी कालोनी रामोतार के मकान के तक , यहा से बाई आबादी को शामिल करते हुए पूर्वी ओर उदय सिंह वाली , राजीव कालोनी, को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते चलकर ढाणी बाणयावाली, सीमा में स्थित कालोनी को छोडते हुए साध्यावाली रास्ते तक, यहा से उत्तरी ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बट्टी कुमावत के मकान के सामने तक, यहा से पश्चिमी ओर बाई ओर की आबादी को अम्बेडकर कालोनी अन्य आबाद कालोनी को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते पंचाली रेलवे फाटक पम्पिंग सेट तक ।
11	11	स्व.योगेन्द्र सिंह नारूका के मकान के उत्तरी दक्षिणी कोने से पश्चिमी की ओर सुनारो की बगीची की ओर चलते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मक्खन पुजारी की सीव तक, यहा से पूर्वी ओर चलते हुये बिज्यावाली की समस्त आबाद अन्य आबादी को शामिल करते हुए बिज्यावाली स्कुल के सामने तक, यहा से उत्तरी पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी कृषि भूमि बाणया वाली मे बसी कालोनी को शामिल करते हुए राजीव कालोनी एवं उदय सिंह वाली को छोडते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते-चलते पनु- स्व.योगेन्द्र सिंह नारूका के मकान के उत्तरी दक्षिणी कोने तक ।
12	12	संधी धर्मशाला क उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण ओर स्टेशन रोड रास्ते-रास्ते की आबादी को शामिल करते हुए रेलवे फाटक मानपुरिया तक, यहा से सुनारो की बगीची के सामने से उत्तरी ओर सीधे-सीधे वार्ड नं. 10,11 की सीमा को छोडते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए पंचाली फाटक तक, यहा से दक्षिण की ओर रेलवे लाईन पार इण्डिया स्कुल रास्ते तक, यहा से उत्तर की रैगर बस्ती रास्ते-रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए गंगा माता मन्दिर चैराहे तक , यहा से पश्चिम की ओर घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए संधी धर्मशाला तक ।
13	13	सैलानी भाण्ड के मकान से दक्षिण की ओर चलकर ईश्वर जाट के मकान तक, यहा से पूर्व की ओर मोल्यावली एवं काज्यावली ढाणी को छोडते हुए सीव-सीव बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए दरवाजे वाले बालाजी मन्दिर को छोडते हुए महावीर दल को शामिल करते हुए चैक तक,यहा से

		दक्षिणी ओर बाई ओर की आबादी शामिल करते हुए पंचायत समिति के कोने पेट्रोल पम्प के सामने रोड तक, यहा से रोड-रोड बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए पटवारी धर्मशाला तक, यहा से पश्चिम की गली होते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मूलचन्द कसेरा के मकान तक, यहा से पूर्व की ओर रास्ते-रास्ते चलकर चोथमल जाट के मकान तक, यहा से पश्चिम की ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए सैलानी भाण्ड तक
14	14	इन्द्रा विश्राम गृह के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर कोठी मोल्यावली काज्यावाली की उत्तरी सीव चलकर कोठी काजी वाली आबादी को छोडते हुए हरिनारायण बलाई के मकान तक, यहा से उत्तर की ओर सत्यनारायण नाई के मकान तक, यहा से उत्तर की ओर रास्ते-रास्ते श्याम पार्क के उत्तरी-पूर्वी कोने तक, यहा से पश्चिमी की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए केशाराम के मकान को शामिल करते हुए दक्षिणी ओर घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए टंकी के सामने स्थित मकान तक, यहा से दक्षिण दिशा की ओर रास्ते-2 चलकर इन्द्रा विश्राम गृह के दक्षिणी पश्चिमी कोने
15	15	मीणा चैक में रामनारायण मीणा के मकान के कोने से दक्षिण की ओर रास्ते रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए पानी की टंकी तक, यहा से पूर्वी ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते मीणा मन्दिर (ठाकुर जी) के कोने तक, यहा से उत्तर की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए पटवारी कालेज के सामने खाकीवालो के पूर्वी उत्तरी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मीणा चोक में रामनारायण मीणा के मकान के पश्चिमी उत्तरी कोने तक।
16	16	सीकर बाजार बाईपास के उत्तरी पूर्वी कोने से काल्यावाली से दक्षिण दिशा की ओर रास्ते-रास्ते बाई आबादी को शामिल करते हुए कुआ गोपीनाथ जी की कृषि भूमि के पश्चिमी-दक्षिणी कोने तक, यहा से पूर्वी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए पटवारी कालेज के पश्चिमी कोने के सामने शंकर गोपालका के मकान दुकान तक , यहा से उत्तरी ओर चलकर राधेश्याम कयाल के पुराने मकान के उत्तरी पूर्वी कोने तक , यहा से पश्चिम की ओर बाई आबादी को शामिल करते हुए मोहन लाल गोपालका की दुकान तक, यहा से रास्ते-रास्ते चलकर पश्चिमी ओर बाई आर की आबादी का शामिल करते हुए बाईपास रोड तक ।
17	17	गोकुलका की मकान दुकान से पूर्वी ओर रास्ते रास्ते गोपीनाथ जी मन्दिर के

		उत्तरी पूर्वी कोने (राजगुरु कर दुकान) तक, यहा उत्तर की ओर रींगस बाजार में चलते हुए बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए चोपड बाजार में स्थित इमली वाले बालाजी मन्दिर को छोड़ते हुए पश्चिमी ओर सीकर बाजार की बाईं आबादी को शामिल करते हुए बनारसी तिवाड़ी की दुकान की तक, यहा से दक्षिण में रास्ते-रास्ते बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए न्यारियो के मकान के सामने स्थित मकान दुकान के सामने तक, यहा से पूर्वी ओर रास्ते-रास्ते बाईं आबादी को शामिल करते हुए श्याम गोपाल ठेरा की ओर की दाईं ओर की आबादी को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर घूमकर बाईं आबादी को शामिल करते हुए गोकुलका के मकान दुकान तक।
18	18	गडगडा मोड खण्डेला बाजार से पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते चलकर गौशाला होते हुए गोपाल सेवदा के सामने स्थित गोशाला बड तक, यहा से दक्षिण की ओर सीधे-सीधे रास्ते-रास्ते चलते बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए बोहरा जी के आगे काबरो के सामने वकील जी के मकान तक , यहा से पूर्वी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाईं ओर आबादी को शामिल करते हुए गोकुलका के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी ओर कालु कसेरा की दुकान तक, यहा से उत्तर की ओर चलकर बाईं ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए गडगडा मोड तक
19	19	सुनारो की बगीची के उत्तरी पूर्वी कोने से पूर्वी ओर खण्डेला बाजार रास्ते-रास्ते भूरामल के मकान से पंजाब नेशनल बैंक वाले रास्ते से नायको के चोराहे से अंजनी माता के मन्दिर व उसके दक्षिण में स्थित खाली बाडे को शामिल करते हुए सीताराम चौधरी की कृषि भूमि की दक्षिणी सीव-सीप चलकर सीताराम चौधरी की भूमि में बसी हुई सम्पूर्ण अग्रसेन कालोनी को शामिल करते हुए अग्रसेन कालोनी के पूर्वी दिशा की खाली भूमि को छोड़ते हुए सीताराम चौधरी की कृषि भूमि की उत्तरी सीमा तक, यहा से सीताराम चौधरी की कृषि भूमि की सीव-सीव बाईं ओर की अग्रसेन कालोनी को शामिल करते हुए व्यास जी की स्कुल के पश्चिमी उत्तरी कोने तक, यहा से व्यास जी की स्कुल के सामने बट्टी खाती के मकान तक , यहा से पश्चिम की ओर चलकर हनुमन्त सिंह के मकान के सामने उम्मेद सिंह की चक्की तक उम्मेद सिंह की चक्की से पश्चिमी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए गोरू माली के सामने पूरी जी दुकान तक, यहां से दक्षिण की ओर मैन रोड चलते-चलते बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए सुनारो की बगीची की पश्चिमी-दक्षिणी कोने तक ।
20	20	श्री नानगराम माली के मकान खण्डेला बाजार से दक्षिण ओर चलकर भूरामल

		देवरीवाले के मकान दुकान के कोने तक यहा से पूर्वी ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए नवरंग कयाल के सामने तक , यहा से दक्षिण की ओर चलकर राधेश्याम , श्रीराम चोधरी के मकान के सामने बदी प्रसाद के मकान तक, यहा से पूर्व की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए सरभू नरेडी तक , यहा से उत्तर की ओर रास्ते-रास्ते चलकर रूडमल के सामने नायको के कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए तेलियो के मकान तक, यहा से दक्षिण की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए नानग राम माली के मकान तक ।
21	21	सुराणी बाजार में ज्वाला प्रसाद जी मउवाला की दुकान के उत्तरी पश्चिमी कोने से पश्चिमी की ओर सुराणी बाजार मे चलते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए नाजिम की मिठाई की दुकान के पूर्वी -दक्षिणी कोने तक, यहा से उत्तर की ओर रास्ते-रास्ते चलते हुए बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए मानपुरिया हवेली के सामने स्थित काम्पलेक्स के पश्चिमी दिशा की ओर चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए रामकुमार जी के मन्दिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक, यहा से उत्तर की चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए रामेश्वर भडभूज्या के मकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर घूमकर रास्ते रास्ते चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए गोकुल को की हवेली के दक्षिण दिशा में चलकर मोठूलाल टेमाणी की हवेली के पश्चिमी उत्तरी कोने तक, यहा से सीधे रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए सीकर बाजार में स्थित नारायण मल कन्हैयालाल के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक, यहा से सीकर बाजार मे रास्ते-रास्ते चलते हुए बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए शाकम्बरी स्टोर तक, यहा से पूर्वी ओर चलकर दक्षिणी की ओर रींगस बाजार में रास्ते-रास्ते चलते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मूलचन्द विश्वनाथ नारनौली की दुकान के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक, यहा से पूर्व की ओर चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए नानगराम स्वामी के मकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक, यहा से उत्तरी ओर घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए सुराणी बाजार में ज्वाला प्रसाद जी मउवाला की दुकान तक ।
22	22	श्याम पार्क के सामने ग्यारसी लाल कुम्हार के मकान दुकान के दक्षिण-पश्चिमी कोने से पश्चिम की ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल

		<p>करते हुए सुण्डाराम लालचन्द गोठवाल के मकान दुकान तक, यहा से उत्तर की ओर मैन रोड नागरिक परिषद पुस्तकालय के कोने तक यहा से पूर्वी ओर मैन रोड चलकर फुलका दुकान तक, यहा से उत्तरी ओर चलकर गोविन्द राम केशर मल , फलुराम के मकान दुकान तक, यहा से पश्चिम की ओर चलकर बाई आबादी को शामिल करते हुए पार्वती प्लाजा के कोने तक, यहा से उत्तर की ओर शिव शंकर कयाल काम्पलेक्स के पूर्वी उत्तरी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर पोस्ट आफिस वाली गली की ओर सीधे मैन रोड रिंगस बाजार रामस्वरूप गोपालका की दुकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक , यहा से दक्षिण की ओर रिंगस बाजार रास्ते-रास्ते चलकर बाई आबादी को शामिल करते हुए बालिका स्कुल के दक्षिण पश्चिमी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर बाई आबादी को शामिल करते हुए मित्तल की मास्टर जी के मकान तक, यहा से उत्तरी ओर घूमकर रास्ते रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्यामसुन्दर गोपाल ठठेरा के मकान तक, यहा से पश्चिमी ओर घूमकर रास्ते रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रमेश न्यारिया के मकान तक, यहा से दक्षिण की ओर घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए पटवारी कालेज को शामिल करते हुए नृसिंह डीडवानिया के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने तक, यहा से दक्षिण की ओर मीणो के मन्दिर के सामने गोवर्धन नाई के मकान को शामिल करते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए ग्यारसी लाल कुम्हार के मकान तक ।</p>
23	23	<p>गंगा मन्दिर की उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण ओर चलकर रामनिवास सुनार के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते चलकर चोथमल जाट के मकान तक, यहा से दक्षिण की ओर चलकर बाई आबादी को शामिल करते हुए अमर सिंह के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मांगीलाल चोटिया के मकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक, यहा से पूर्व की ओर लाधू खटीक के मकान को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते चलकर गुरुदत्त पंजाबी की दुकान तक, यहा से उत्तर की ओर चलकर राजकीय चिकित्सालय तक, यहा से पश्चिमी की ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए गंगा माता मन्दिर के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक ।</p>
24	24	<p>खटोडान बाजार स्थित राजकीय माध्यमिक विधालय के उत्तरी पूर्वी कोने से पूर्वी ओर चलकर सोमानी दुकान तक, यहा से उत्तर की ओर रास्ते-रास्ते बाई आबादी को शामिल करते हुए चेजारो की धर्मशाला तक, यहा से पश्चिमी ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए चेजारो के मन्दिर तक, यहा से गेन्दा माली (सुराणी बाजार) की दुकान तक, यहा से पूर्वी ओर तेलियो की</p>

		दुकान तक, यहा से उत्तर की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए थोई वाले के मकान के सामने तिवाडियो के मकान तक , यहा से रास्ते-रास्ते पश्चिम की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रामपाल कयाल के मकान तक , यहा से दक्षिण की ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मैन रोड सीताराम पान वाले तक, यहा से पूर्वी ओर चलकर रामगोपाल सरायवाले के मकान तक, यहा से दक्षिण की ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए काम्पलेक्स तक, यहा से सीधे चलकर नानग राम स्वामी के सामने स्थित काम्पलेक्स तक , यहा से पश्चिमी ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए कयाल काम्पलेक्स के सामने रामगोपाल कयाल की दुकान तक यहा से दक्षिण की ओर बाई आबादी को शामिल करते हुए मातादीन पंसारी के उत्तरी पश्चिमी कोने तक यहा से रास्ते -रास्ते पूर्व की ओर चलकर प्रहलाद मोची की दुकान के उत्तरी दक्षिणी कोने तक , यहा से दक्षिण की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई आबादी को शामिल करते हुए रूधुनाथ मन्दिर के उत्तरी पश्चिमी कोने तक , यहा से रास्ते-रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए खटोडान बाजार स्थित राजकीय माध्यमिक विधालय के उत्तरी पूर्वी कोने तक ।
25	25	फतेहलाल सरायवाला के मकान से पूर्व दक्षिणी कोने से रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए थोई वालो के मकान तक, यहा से दक्षिणी ओर चलकर इन्द्र हाण्डा के मकान से पूर्व की ओर गुरुद्वारा के रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए गासराम के मकान तक, यहा से पूर्वी ओर आगे पश्चिमी ओर चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए रमेश पंजाबी के मकान तक, यहा से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बनवारी ठेकेदार से काल्यावाली रेलवे फाटक तक। यहा से उत्तर की ओर रेलवे लाईन-लाईन चलकर रेलवे फाटक कचियागढ तक, यहा से पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बोदू माली की चक्की तक , यहा से उत्तर की ओर रास्ते-रास्ते चलकर पश्चिम दिशा की ओर घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रामोतार मदन लाल के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने तक , यहा से दक्षिण की ओर रास्ते- रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए फतेहलाल सरायवाला के मकान तक ।
26	26	सुराणी बाजार से नौरंग लाल गोपालका की दुकान से दक्षिण की ओर चलकर रामनारायण के मकान तक, यहा से पूर्व की ओर घूमकर नेमीचन्द्र चेजारा के मकान तक , यहा से दक्षिण की ओर घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए गजानन्द वैध के मकान तक, यहा से पश्चिमी की ओर रास्ते-रास्ते

		चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए घोल् की चक्की का शामिल करते हुए अर्जुन आचार्य तक, यहा दक्षिण की ओर सिनेमा के सामने बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मुरली कुमावत के बाड़े तक, यहा से पूर्व में रास्ते-रास्ते बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए गंगा माई के मन्दिर को शामिल करते हुए मक्खन हरिजन के मकान तक, यहा से उत्तर में मातादीन हरिजन के मकान को शामिल करते हुए प्रभुदयाल चेजारा के मकान को शामिल करते हुए पूनम वर्मा के मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक, यहा से पश्चिमी की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए नोरग लाल गोपालका की दुकान तक।
27	27	अमरचन्द सोनी के मकान व दुकान से दक्षिण की ओर चलकर दानाराम के मकान तक यहा से पूर्व की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए सिनेमा हाल सामने के प्रभुदयाल खाती के मकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक, यहा से उत्तर की ओर रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए मोहन लाल पातलिया के मकान के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक यहा से पूर्व की ओर रास्ते-2 चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रमेश कुदाल के मकान दुकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक, यहा से उतर की ओर घूमकर रास्ते-रास्ते चलकर रामपाल गोरीशंकर चेजारा के मकान तक, यहा से पश्चिम की ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रामचन्द्र चैधरी के बाड़े तक, यहा से सालासर बालाजी वाली गली में घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए दयाल टेन्ट हाउस की दुकान क उत्तरी दक्षिणी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर घूमकर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए अमरचन्द सोनी के मकान एवं दुकान तक
28	28	पंचाली फाटक से पश्चिम से उत्तर की ओर घूमकर अम्बेडकर पार्क को शामिल करते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए लाला राम मांगीलाल हरिजन के मकान तक, यहा से पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते कानाराम हरिजन के मकान के पश्चिमी उत्तरी कोने तक, यहा से प्रभु सेडू के मकान को शामिल करते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर गिरधारी जमादार के मकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए छोटूराम रिगसनियां के मकान तक, यहा से दक्षिण की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए रामेश्वर लाल मोरिया के मकान तक, यहा से पूर्वी उत्तरी ओर रेलवे लाईन पंचाली फाटक तक

29	29	रेलवे फाटक पोलादास दक्षिण की ओर रेलवे लाईन-लाईन चलते हुए रेलवे फाटक पंचाली मन्दिर तक, यहा बायीं ओर की आबादी को शामिल कर पूर्व की ओर सडक-सडक चल कर कूलवालो की कोठी तक, यहा से उत्तर की ओर मूडकर नगर पालिका सीमा-सीमा ढाणी काल्यावाली महन्तावाली बागावाली नीमडावाली शिव कालोनी अन्य मकानो को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा-सीमा चलते हुए बायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुए रेलवे फाटक पोलादास तक ।
30	30	रेलवे फाटक काल्यावाली से पश्चिम की सडक-सडक नन्दलाल चेजारा की दुकान तक, उत्तर की ओर घूमकर दयाल पंजाबी के मकान तक, यहा से पश्चिम की ओर घूमकर लालचन्द पंजाबी के मकान तक, यहा से मस्जिद की दुकान तक, यहा से बाईं आबादी कालुराम पानवाले, उत्तम सिंह सरदार के मकान तक, यहा से पूर्व की ओर चलकर पूनम वर्मा के मकान तक, यहा से दक्षिण की ओर माधव सिंह चिकित्सालय रास्ते-रास्ते पंचाली फाटक तक बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए उत्तरी ओर रेलवे फाटक काल्यावाली तक ।
31	31	नोरग लाल कयाल के मकान से पूर्व की ओर घूमकर श्याम सुन्दर चौधरी (बैंक वाले)के मकान तक, यहा से उत्तर की ओर फूलचन्द सरायवाला के नोहरे को शामिल करते हुए पूर्वी ओर कचियागढ रास्ते बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए बनवारी नाई की दुकान तक, यहा से उत्तर की ओर घूमकर अली बाबा के पीछे दक्षिण पश्चिम की ओर कोठी बाकली मे नारायण जाट की आबादी को छोडते हुए एवं नवनिर्मित कालानी (जो कचियागढ के रास्ते से सलंगन है) को शामिल करते हुए बाकली के रास्ते पर गणेश बीरू बलाई के मकान तक, यहा से कोठी बाकली की आबादी को छोडकर बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए दक्षिणी ओर मानपुरिया मोहल्ला रास्ते रूडमल दरोगा तक, यहा से दक्षिणी ओर रास्ते-रास्ते बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए नौरग लाल कयाल के मकान तक ।
32	32	अली बाबा के उत्तरी पूर्वी कोने से दक्षिण की ओर चलते-चलते पतासी देवी मीणा की दुकान तक, यहा से पूर्व की ओर रास्ते-रास्ते चलकर बाईं ओर की आबादी को शामिल कर कचियागढ रेलवे फाटक तक, यहा से उत्तर की ओर पोलादास फाटक तक, यहा से दक्षिण-पश्चिम की ओर वाली गली को छोडते हुए बाईं ओर की आबादी ढाणी बुग्लावाली को शामिल करते हुए स्टेडियम के उत्तरी पश्चिमी कोने तक, यहा से दक्षिणी ओर कोठी बाकली की पुरानी

		आबादी को शामिल करते हुए स्टेडियम के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक सीमा-सीमा अली बाबा के उत्तरी पूर्वी कोने तक
33	33	श्री सीताराम चैधरी की कृषि भूमि सीव से चलते हुए आबादी कोठी बाकंली को छोड़ते हुए स्टेडियम की सीमा एवं नारायण जाट को छोड़ते हुए आगे दक्षिण सीव-सीव पूर्व की ओर चलते हुए वार्ड नं. 34 की सीमा छोड़कर उत्तरी ओर चलकर कोठी बगड वाली के उत्तरी पूर्वी कोने तक, यहा से पश्चिम की ओर भागीरथ सेनी की दुकान तक, यहा से उत्तर की ओर चलकर बाडी एवं बराला वाली पश्चिमी सीमा-सीमा चलकर न्यू कालोनी को शामिल करते हुए मदन लाल सेनी, मक्खन लाल खटीक, हरिनारायण खटीक, शंकर लाल सैनी की उपरोक्त मकान पट्टी को छोड़ते हुए समस्त बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए पानी टंकी तक, यहा से बाई ओर की आबादी को शामिल कर स्कुल के पीछे मोड गेट तक, यहा पूर्व की ओर चलकर स्कुल के पूर्वी पश्चिमी कोने तक, यहा से दक्षिण की ओर स्कुल को छोड़ते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल कर सीधे-सीधे दक्षिण की ओर बाजार रोड चलते हुए पूर्व में घूमकर दाई ओर की आबादी अग्रेसन कालोनी को छोड़ते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री सीताराम चैधरी की कृषि भूमि सीव तक ।
34	34	बालुराम सैनी की कृषि भूमि छोड़ते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए माटोलिया वाली गणेश कालोनी को शामिल करते हुए मदन लाल सैनी, शकर लाल सैनी, मक्खन खटीक, हरिनारायण खटीक उपरोक्त मकान पट्टी को शामिल करते हुए बाई ओर की आबादी नई ढाणी बराली नाथूराम सैनी व बाडा वाली की पश्चिम सीमा-सीमा चलते हुए हनुमान सैनी के मकान तक, यहा से पूर्व की ओर चलकर शिवदयाल तक, यहा से कोठी बगड वाली की पूर्वी सीमा-सीमा दक्षिण मे स्टेडियम तक, यहा से उत्तर-पूर्व की ओर चलते हुए ढाणी बडबोर वाली बाबाजी वाली को शामिल करते हुए पोलादास फाटक तक, यहा से कोलावतान की पीपलावाली की बाई आबादी को शामिल करते हुए बालुराम की कृषि भूमि तक
35	35	बाबा ब्रह्मचारी आश्रम से दक्षिण की ओर चलकर गणेश मन्दिर होते हुए गोरू माली की दुकान तक, यहा पूर्वी ओर पुष्पनगर रास्ते चलकर उम्मेद सिंह मकान चक्की के सामने घूमकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए उत्तरी स्कुल जाने वाले रास्ते स्कुल को शामिल करते हुए पीछे स्थित रास्ते पश्चिम चलकर उत्तरी ओर रास्ते-रास्ते पानी की टंकी तक, यहा से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल कर उत्तरी कोने मदन सैनी से होते

	हुए बालुराम सैनी की ढाणी कुषि भूमि सीव-सीव बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बाबा ब्रह्मचारी आश्रम के दक्षिणी कोने तक
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आधिषाशी आधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।